

तैयारी करें। तैयार रहें।

जानें कि बि जिली गुल होने की स्थि तिमिं क्या करना है।

मौसमी आपदाएँ आती रहती हैं, बड़े तफूनों क साथ जो लंबे समय तक चलते हैं। Austin Energy विश्वसनीयता में सुधार करने और आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए साल भर काम करती है। आप भी तैयार हो सकते हैं।

बजिली गुल होने से पहले योजना बनाएँ और तैयारी करें

- फ्लैंशलाइट, बैटरी, बोतलबंद पानी और अन्य ज़रूरी चीजों के साथ एक आपातकालीन किट बनाएँ। अपने और अपने परिवार के लिए खास चीज़ें जैसे पालतू जानवरों की आपूर्ति, बच्चे का खाना और निरधारित दवाइयाँ रखें।
- बीमा दस्तावे ज़, व्यक्तिगत रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षिति, जलरोधक जगह पर रखें।
- आपातकालीन संपरकों की एक मुद्रित सूची रखें, ताकि अगर आपके से ल फ़ोन की बिजली चली जाए तो आप उसका इस्ते माल कर सकें।

बजिली कटौती के दौरान सुरक्षति और सूचित रहने का तरीका जाने

- विश्वसनीय अपडेट के लिए Austin Energy के आउटेज मैप और अन्य आधि कारिक स्रोतों को बुकमार्क करें।
- गरि हुई बजिली लाइनों और अन्य संभावित खतरों के आसपास सुरक्षति रहने का तरीका जानें।
- सुनिश्चित करें कि Austin Energy के पास आपकी वर्तमान संपर्क जानकारी है और आपके घर के सभी सदस्यों को आउटे ज अलर्ट प्राप्त होते हैं। जाँच करने के लिए अपने COAUtilities. com खाते में लॉग इन करें।

बजिली कटौती के बारे में जानें और Austin Energy उन्हें कै से संभालती है।

- जानें कि बि जिली कटौती का कारण क्या है और क्यों कुछ को ठीक करने में अधिक समय लगता है।
- जानें कि Austin Energy आउटे ज आपात स्थितियों के लिए कैसे तैयार होती है और हम बिजली कैसे बहाल करते हैं।
- लचीलापन सुधारने और यह सुनि श्चिति करने के प्रयासों के बारे में जानें कि जब और जहाँ आपको इसकी आवश्यकता हो, बिजली उपलब्ध हो।



AustinEnergy.com/Outage पर सुरक्षा सुझाव और अधि क जानकारी प्राप्त करें।





